

## Mindmagiq - MIND BOOSTER PROGRAM SNAPSHOT

वेलकम एंड थैंक यू फॉर अलाउडिंग टीम माइंडमैजिक टू बिकम अ पार्ट ऑफ योर ब्यूटीफुल लाइफ।

वेलकम इस लाइफ चेंजिंग माइंड बूस्टर प्रोग्राम में, जहाँ आप खुद को नये सिरे से जानने और एम्पावर करने की एक यूनिक जर्नी पर निकलेंगे। इस प्रोग्राम के थ्रू, हम आपको, आप ही के हिडन पोटेंशियल को अनलॉक करने का, और अपने ड्रीम लाइफ को डिज़ाइन करने का फॉर्मूला बताएंगे। यह जर्नी आपको नए इनसाइट्स, प्रैक्टिकल टूल्स, और लाइफ-चेंजिंग टेक्नीक्स से रूबरू कराएगी, जो आपके पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों में ब्रेकथ्रू लाने का एक सॉलिड प्रॉमिस करते हैं।

हमारा यह माइंड बूस्टर प्रोग्राम ईयर्स ऑफ कोचिंग एंड डाइवर्स एक्सपीरिएंसेस से इवॉल्व हुआ है, जिसमें बहुत सारे डिफरेंट सेक्टर्स से आए लोगों ने कॉन्ट्रिब्यूट किया है। यह प्रोग्राम लॉट्स ऑफ टिप्स, सीक्रेट्स, इनोवेशन्स, एंड टेक्नोलॉजी का एसेंस है जो हमने अपनी पर्सनल डेवलपमेंट के जर्नी में सीखा है। इस प्रोग्राम में आपको वो सब मिलता है जो सक्सेस, पर्फेक्ट लाइफस्टाइल, और ड्रीम लाइफ डिज़ाइन करने के लिए ज़रूरी है। यह प्रोग्राम सिंपल, ईज़ी टू अंडरस्टैंड एंड इफेक्टिव तरीके से प्रेज़ेंट किया गया है।

हमारा प्रोग्राम स्टडी ऑफ एनर्जी, पावर ऑफ माइंड, पावर ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड इट्स फंक्शन्स, एंड पर्सनल डेवलपमेंट जैसे सब्जेक्ट्स में करंटली अवेलेबल इनफॉर्मेशन को कॉम्बाइन करता है, ताकि आप अपनी लाइफ के हर इम्पोर्टेंट एरिया में इफेक्टिव एंड प्रोग्रेसिव चेंजेस ला सकें। इस प्रोग्राम में आप ज्यादा एनर्जी एंड फोकस ही नहीं बल्कि अपनी बॉडी को सपोर्ट, स्ट्रेंथेन, एंड रिपेयर करने के तरीके में भी एक प्रोफाउंड एंड लॉन्ग-लास्टिंग इम्प्रूवमेंट देखेंगे।

इस प्रोग्राम में आप सीखेंगे हाउ टू बिल्ड एंड मेंटेन क्लोज एंड स्ट्रांग कनेक्शंस, ऑन टॉप ऑफ दैट यू विल लर्न स्पेशल स्किल्स जो आपको हेल्प करेगा लोगों के इमोशंस को समझने का, उन्हें स्ट्रेंथेन करने का, और अपने आस-पास के हर एक शख्स पर, चाहे वो आपके वर्क मैट्स हों, या फैमिली, फ्रेंड्स, या फिर फ्यूचर रोमांटिक पार्टनर्स हों, सब पर एक पावरफुल असर छोड़ने का। इयूरिंग दिस प्रोग्राम आपका वर्क परफॉर्मेंस सिर्फ बेटर ही नहीं होगा, बल्कि आप एक फास्ट ग्रोथ भी एक्सपीरिएंस करेंगे, जो न्यू करियर ऑप्शन्स, बिज़नेस को ग्रो करने, बेटर पे, एंड प्रमोशन्स के नए दरवाजे भी खोलेंगा।

## Mindmagiq - MIND BOOSTER PROGRAM SNAPSHOT

इस प्रोग्राम में आपका अपने पैशन को लेकर आउटलुक तो पॉजिटिव होगा ही होगा, साथ में आपके फाइनेंशियल अवेयरनेस में भी काफी सुधार होगा और आपकी लाइफ में फ्लोरिशिंग सिचुएशन्स, रिसोर्सफुल लोग, और ऑपच्यूनैटीज़ को अट्रैक्ट करने की कैपेसिटी भी बढ़ेगी। आप खुद के लिए एकस्ट्रा टाइम भी निकाल पाएंगे और आपको एक प्रकार का इमोशनल, मेंटल, एंड फाइनेंशियल फ्रीडम भी मिलेगा, जिससे आप अपने टर्म्स पर एक ऐसी लाइफ डिजाइन कर सकोगे, जो पैशन और पर्पज़ से फुलफिल्ड होगी, जिसमें ऐसे लोग, एक्टिविटीज़, और ऑपच्यूनैटीज़ होंगी, जो आपको खुश और सैटिस्फाइड रखेंगे।

आप लोगों में से मेजॉरिटी ऑफ लोग, जो अपने पर्सनल डेवलपमेंट के लिए डेडिकेटेड हैं, उन्होंने इनमें से कुछ ना कुछ टेकनीक, कभी ना कभी, तो ज़रूर ट्राई की होगी, चाहे वोह विज़ुअलाइज़ेशन हो, गोल सेटिंग हो, मेडिटेशन हो, मैनिफेस्टिंग हो, या थोड़ा टेक्निकल, जैसे हिप्नोसिस ही क्यों ना हो। एंड मेबी, आपने, अपने जर्नी में कुछ प्रोग्रेस भी एक्सपीरिएंस किया होगा, पर अभी भी, आप अनइंस्पायर्ड, अनमोटिवेटेड, स्टक, और अनप्रोडक्टिव ही फील करते हैं, और आप चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, समझ नहीं पाते, कि आखिर क्या मिसिंग है, टू ऑलवेज़ मेक इट ऑल वर्क।

मैं बता दूँ, आप अकेले नहीं हैं, मेजॉरिटी ऑफ लोग, चाहे वो किसी सब्जेक्ट की स्टडी कर रहे हों, या किसी बुक को फॉलो कर रहे हों, या फिर, किसी गुरु को फॉलो करते हों, ज्यादातर इस फ्रस्ट्रेशन को फील करते हैं...तो वो बहुत ही कम पर्सेंटेज ऑफ लोग, जो इस ट्रेंड को चैलेंज करते हैं, जो अपने बुरे दिनों के बावजूद भी, अपने गोल्स को अल्मोस्ट उतनी ही जल्दी मैनिफेस्ट कर लेते हैं जितनी जल्दी उन्होंने, इन गोल्स को एनविज़न किया था, वो आखिर ऐसा करते क्या हैं? वेल इन लोगों ने एक बहुत ही पावरफुल सिस्टम डेवलप किया है, जो उन्हें ह्यूमन लिमिटेशंस के बियॉन्ड जाने में हेल्प करती है और ऐसे लेवल्स तक पहुँचने के लिए कैपेबल बनाती है जो ज्यादातर लोगों के लिए इमैजिन करना भी पॉसिबल नहीं होता।

तो ऐसा क्या है, जो, दुनिया के सबसे बेहतरीन लोगों को बाकी लोगों से अलग बनाती है? क्या यह उनका फेथ है, या उनके कस्टम्स हैं, या उनका इंटेलिजेंस है, या उनके हैबिट्स हैं, या उनका सेल्फ-कंट्रोल एंड डिटर्मिनेशन है, या फिर वो पैदा ही ऐसे हुए हैं? या फिर, क्या यह सिर्फ एक स्ट्रोक ऑफ लक है जो यूनिवर्स ने उन्हें दिया है? और इसका जवाब है, यह सारी चीज़ें अचीव करने की एक सक्सेस रेसिपी हैं,...हमारे माइंड बूस्टर प्रोग्राम की फाउंडेशन भी इसी सक्सेस

## Mindmagiq - MIND BOOSTER PROGRAM SNAPSHOT

रेसिपी पर है, और हमें विश्वास है कि हमारे प्रोग्राम के थू आप भी इन ब्रेकथ्रू को एक्सपीरिएंस कर पाएंगे।

अब आप पूछेंगे, आखिर, इस सक्सेस रेसिपी में ऐसी भी क्या खास बात है। तो पहले तो मैं आपको यह बता दूँ, कि आपको कुछ ज्यादा हार्ड वर्क करने की ज़रूरत नहीं है, आप बस हमारे प्रोग्राम में बताए हुए स्टेप्स को फॉलो करो और आपकी सक्सेस, लगभग गारंटीड है...मैं इतने कॉन्फिडेंस से इसलिए कह रही हूँ, क्योंकि, जबसे हमने अपनी लाइफ में इस सक्सेस रेसिपी को इम्प्लीमेंट करना शुरू किया है, तब से हमारी लाइफ मैजिकल हो गई है। हम, हर रोज़ इस रेसिपी को फॉलो करते हैं, या आप कह सकते हैं, इस रेसिपी को जीते हैं और हम हमारे प्रोग्राम में वही टीच करेंगे जो हम अपनी लाइफ में रोज़ फॉलो कर रहे हैं। वी प्रैक्टिस व्हाट वी प्रीच। हम बहुत फॉर्च्युनेट हैं कि हम अब ऐसी ज़िन्दगी जी पा रहे हैं, जैसी हम हमेशा से जीना चाहते थे, जिसमें एक बिज़नेस है जो बहुत सारे लोगों को हेल्प करता है टू इम्प्रूव देयर माइंडसेट एंड देयर लाइव्स, वी हैव लवली रिलेशनशिप्स, इनर पीस है, और लाइफ को फुल्ली एन्जॉय करने की एबिलिटी है। इस रेसिपी ने हमारी दुनिया को कम्पलीटली बदल दिया है, और यह आपकी दुनिया को भी बदल देगा..अगर आप चाहें तोह।

हमारा माइंड बूस्टर प्रोग्राम आपको सिखाता है कि आप कैसे अपने डे टू डे रूटीन में छोटे, सिंपल, लेकिन इम्पोर्टेंट चेंजेस इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। यह प्रोग्राम आपकी हेल्प करेगा अपने बिहेवियर और कंडक्ट को बेहतर बनाने में। आप अपनी इनर कन्वर्सेशन को ज्यादा नोटिस करना शुरू करेंगे। इसका असर, आपको कुछ दिनों में ही दिखने लगेगा, और आने वाले हफ्तों में, और ज्यादा नज़र आएगा। इन चेंजेस के साथ आपकी सेल्फ-अवेयरनेस, अटेंशन, एनर्जी, थैंकफुलनेस, पॉजिटिविटी, और एम्पावरमेंट में भी इम्प्रूवमेंट होगा, और इसका असर आपके एक्सटर्नल रियलिटी में भी दिखाई देने लगेगा।

**तो, यह माइंड बूस्टर प्रोग्राम आखिर है क्या?**

हमारा कॉम्प्रेहेंसिव, ऑनलाइन माइंड बूस्टर प्रोग्राम, आपको सक्सेस के रेसिपी के हर आस्पेक्ट्स में ट्रेन करता है। प्रोग्राम को पर्चेस करने के बाद, आपको हमारी वेबसाइट के स्पेसिफिक सेक्शन का एक्सेस मिलेगा, जहाँ आपको मिलेंगे...ट्रांसफॉर्मेशनल वीडियो क्लासेस, अपनी परफॉर्मंस का बेस्ट ऑफ द बेस्ट रिजल्ट पाने के लिए, बहुत ही इफेक्टिव एक्सरसाइजेस, ईजी टू फॉलो इंस्ट्रक्शन्स, डेली सक्सेस रिचुअल्स के आइडियाज़ जो आपकी ऑप्टिमल स्टेट

## Mindmagiq - MIND BOOSTER PROGRAM SNAPSHOT

को मेंटेन करने में हेल्प करेंगे, आपके अचीवमेंट के लिए इंस्पायरिंग चेकलिस्ट्स एंड एनकरेजिंग टूल्स मिलेंगे और साथ ही आप अपने कोच से वन-ऑन-वन कम्युनिकेट भी कर सकते हैं थ्रू ईमेल या फोन कॉल।

हमारे सक्सेसफुल माइंड बूस्टर प्रोग्राम को समझना और फॉलो करना बहुत ही आसान है। इस प्रोग्राम में हैं दस बहुत सिंपल एंड ईजी-टू-फॉलो ई-मॉड्यूल्स। जैसे-जैसे आप, इन मॉड्यूल्स और बताई हुई एक्सरसाइजेस या कह लीजिए एक्टिविटीज़ को कंप्लीट करेंगे आपको सक्सेस रेसिपी का हर एक कौम्पोनेंट मिलना शुरू हो जाएगा...तो लेट मी शेयर अ स्नैपशॉट ऑफ द मॉड्यूल्स:

**# 1 मॉड्यूल पॉजिटिव वाइब्रेशन कैसे जेनरेट करें,** में सीखिए, वो रूटीन, जो सक्सेसफुल लोग, अपनी एवरीडे लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं, ताकि वो अपने आपको सक्सेस और अबंडेंस की फ्रीक्वेंसी के साथ ट्यून कर सकें। यह रूटीन आपको लाइफ में ऑपच्यूनिटीज़, वेल्थ, और अप्रोप्रिएट लोगों की फ्रीक्वेंसी के साथ लिंक करने में हेल्प करेगा।

**# 2 मॉड्यूल पावरफुल इंटेंशंस और क्लियरली डिफाइन ऑब्जेक्टिव्स कैसे डेवलप करें,** में सीखिए पावरफुल इंटेंशंस और गोल्स सेट करने का तरीका, जो आपको अपने खुद के डेस्टिनी पर कंट्रोल पाने में हेल्प करेगा। इस मॉड्यूल में आप पाएंगे कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग और आई-ओपनिंग एक्टिविटीज़, जो आपको अपने लिए बेस्ट इंटेंशंस और गोल्स चूज़ करने में हेल्प करेंगे, और साथ ही साथ आप पाएंगे, कुछ बहुत ही स्ट्रांग टूल्स, जो यूनिवर्स के हेल्प से आपके गोल्स और इंटेंशंस को फुल्ली एनर्जाइज़ कर देंगे।

**# 3 मॉड्यूल एम्पावरिंग अफर्मेशंस कैसे लिखें,** में सीखिए के आप कैसे अपने गोल्स को और जल्दी मटेरियलाइज़ कर सकते हैं यूज़िंग डिफरेंट टाइप ऑफ एम्पावरिंग अफर्मेशंस। इस मॉड्यूल में हम न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग (NLP) और "पावर" अफर्मेशंस जैसे टॉपिक्स पर और डेपथ से जानकारी लेंगे, जो आपकी हेल्प कर सकते हैं, अपने गोल्स को और जल्दी अचीव करने में।

**# 4 मॉड्यूल अपनी लाइफ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे अप्लाई करें,** में सिखाएंगे के वैसे तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन (LOA) बहुत सारे पर्सनल डेवलपमेंट क्लासेस में कवर किया जाता है, लेकिन यहाँ हम और भी डेपथ में जाएंगे, ऐसे ट्यूटोरियल्स के साथ जो आपको बताएंगे कि कैसे अपने रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम (RAS) को एक्टिवेट करें, यह

## Mindmagiq - MIND BOOSTER PROGRAM SNAPSHOT

आपके दिमाग का वो हिस्सा है जो आपको चीजें मटेरियलाइज़ करने की एबिलिटी देता है। इसके अलावा, आपको और भी बहुत सारी एडवाइस मिलेगी लॉ ऑफ अट्रैक्शन को एन्हांस करने के लिए, फॉर एकजाम्पल, कैसे इमोशनस और रिपीटिशन के बेनेफिट्स को अपने डेली रूटीन में इनक्लूड करें और परफेक्ट रिजल्ट्स अचीव करें।

**# 5 मॉड्यूल इंस्पायर्ड एक्शनस क्या हैं और इनका पर्पस क्या है,** यहाँ, आप सीखेंगे, कि कैसे आप, अपने "इनर गाइडेंस सिस्टम" से कनेक्ट कर सकते हैं, और अपने गोल्स को अचीव करने के लिए सही कोर्स ऑफ एक्शन चूज कर सकते हैं। आपकी प्रोग्रेस को सपोर्ट करने के लिए एक बहुत ही केयरफुली डिज़ाइन्ड रिसोर्सज़ का कलेक्शन भी प्रोवाइड किया जाएगा, और साथ ही कुछ क्रिएटिव तरीके भी बताए जाएंगे जिससे आप मोटिवेटेड और इंस्पायर्ड फील करते हुए एक्शनस ले सकें।

**# 6 मॉड्यूल सेल्फ-लिमिटिंग बिलीव्स क्या हैं और इन्हे कैसे हटाए,** यह मॉड्यूल आपको एक बहुत ही अमेज़िंग प्रोसीजर से वॉक थ्रू कराएगा, जिससे आप अपने दिमाग के कोने-कोने में छिपी हुई वो सारी लिमिटिंग बिलीव्स को हमेशा के लिए खत्म कर सकेंगे, जो आपको किसी भी बड़े काम करने से रोकती हैं। जब आप देखेंगे कि ये धारणाएं आखिर आती कहाँ से हैं, तो आप हैरान रह जाएंगे। इसके अलावा, आप कुछ एक्टिविटीज में हिस्सा लेंगे जो आपकी वाइब्रेशन को इतना बढ़ा देंगे कि नए लिमिटिंग बिलीव्स का पैदा होना लगभग इम्पॉसिबल हो जाएगा।

**# 7 मॉड्यूल अपने पैशन को कैसे पहचानें में हम बात करेंगे पैशन के बारे में,** इसका नेचर, इसके बारे में कॉमन मिसकॉन्सेप्शंस, और सबसे इम्पोर्टेंट, कैसे अपने इंटेरेस्ट्स को अपनी ज़िंदगी का सेंट्रल पार्ट बनाएं एक रियलिस्टिक और सस्टेनेबल वे में। इस मॉड्यूल में आप एक अमेज़िंग एक्टिविटी करेंगे ताकि आप अपना दू पैशन फाइंड कर सकें।

**# 8 मॉड्यूल अपनी लाइफ से रुकावटों को कैसे दूर करें में हम इस सब्जेक्ट को और गहराई से जाएंगे कि अपनी पर्सनल रुकावटों को कैसे ओवरकम करें।** यहाँ आपको कुछ अमेज़िंग रिसोर्सज़ मिलेंगे जो आपको उन रुकावटों को तोड़ने में हेल्प करेंगे जो आपको, अपनी फुल पोर्टेंशियल तक पहुँचने से रोक रहे हैं। इन रिसोर्सज़ में इनक्लूडेड हैं ऐसे टिप्स जो आपकी लाइफ से ऐसे लोगों और सिचुएशनस को दूर करने में हेल्प करेंगे,

## Mindmagiq - MIND BOOSTER PROGRAM SNAPSHOT

जो आपके एनर्जी को ड्रेन करते हैं। ये टिप्स आपको बताएगी कि, अपने हेक्टिक दिनों में भी कीमती पलों को कैसे रिकवर करें, और ये टिप्स आपको इतना कैपेबल बना देगी कि आप इन रुकावटों को फ्यूल की तरह यूज करके, अपने ऑब्जेक्टिव्स तक पहुँच पाओगे।

**# 9 माँड्यूल अपनी लैंग्वेज और थॉट्स को अपनी सफलता के लिए कैसे यूज करें,** में सीखिए कि अपने वर्ड्स और थॉट्स को अपनी मेंटैलिटी, प्रोडक्टिविटी, एबंडेंस, और एम्पैथी को बढ़ाने के लिए कैसे यूज करें। आप सीखेंगे कि डेली बेसिस में, जो बहुत ही सिंपल और इनोसेंट वर्ड्स आप यूज करते हैं, वो एकचुअल में कैसे आपके ही खिलाफ काम कर रहे हैं और आपके एफोर्ट्स को बर्बाद भी कर रहे हैं, और इन्हें कैसे बेटर और पावरफुल वर्ड्स से रिप्लेस करें जो वेल्थ, गुड ऑपच्युनिटीज, और सक्सेस को आपकी तरफ एक पावरफुल मैग्नेट की तरह अट्रैक्ट करेगा।

**# 10 माँड्यूल सोर्स के साथ कॉन्टैक्ट मेंटेन कैसे करें और माइंड बूस्टर प्रोग्राम में सीखी गई हर चीज़ को कैसे इंटीग्रेट करें,** में आपको सिखाया जाएगा कि यूनिवर्स से हेल्प कैसे मांगें और अपने थॉट्स, डिजीजन्स, और एक्शन्स को कॉस्मिक रिदम के साथ कैसे ट्यून करें। हम इस लास्ट माँड्यूल में आपकी जर्नी के ग्रोथ और अचीवमेंट्स को सील करेंगे। सीक्रेट है, इन सभी आइडियाज़ को अपनी डेली लाइफ में एक सिंपल और एन्जॉयबल तरीके से इनक्लूड करना, ताकि यह आपके लिए बिलकुल नेचुरल प्रोसेस बन जाए, जैसे कि सांस लेना।

लोगों का हमसे कनेक्ट करने का एक बड़ा कारण यह है कि वो अपनी ज़िन्दगी को अपने टर्म्स पर जीना चाहते हैं और एक बेहतर तरीके से जीना चाहते हैं। हम जानते हैं कि लाइफ जनरली बिजी होती है, और कभी-कभी तो बहुत ज्यादा ही बिजी हो जाती है। इसलिए, आप हमारे प्रोग्राम को अपनी कम्फर्ट के हिसाब से, अपनी पेस पर फॉलो कर सकते हैं क्योंकि यह आपके बिजी शेड्यूल में फिट होने के लिए बनाया गया है, ना कि आपके वर्कलोड को और बढ़ाने के लिए।

आप अपने डेली रूटीन्स और एक्टिविटीज़ को तब करें जब आपके लिए सबसे कम्फर्टेबल हो, और यह सिर्फ 15 से 20-मिनट का समय लेंगे। हमने प्रोग्राम के अंदर आपके लिए एक कैलेंडर भी डिज़ाइन किया है, ताकि आप सक्सेस रिचुअल्स को डेली करें और माइंडफुल हैबिट्स डेवलप



## Mindmagiq – MIND BOOSTER PROGRAM SNAPSHOT

कर सकें। मॉड्यूलस को इस तरह से डिज़ाइन और लेआउट किया गया है कि इनिशियली आप उन्हें कुछ स्पेसिफिक दिनों के गैप के बाद ही एक्सेस कर सकते हैं। इसका एक बड़ा रीजन है - ऐसे आपको नए बिहेवियर्स को अपनाने का सफ़िशिएंट टाइम मिलता है। जब तक आप इस प्रोग्राम को खत्म करते हैं, तब तक लगभग दस हफ्ते हो चुके होंगे आपको डेली एक्सरसाइज़ और रिचुअल्स को फॉलो करते हुए। इस टाइम तक, ये हैबिट्स आपकी कॉन्शस और सबकॉन्शस माइंड में इतनी डीप जा चुकी होंगी कि आप इन्हें बिना किसी एफ़ोर्ट के फॉलो करना स्टार्ट कर देंगे। प्रोग्राम कम्प्लीट करने के बाद, आपको इस प्रोग्राम का हमेशा के लिए एक्सेस मिल जाएगा, मतलब आप किसी भी टाइम, कहीं से भी इस प्रोग्राम को एक्सेस कर सकते हैं और अपनी लर्निंग को रिफ़ेश कर सकते हैं।

आप चाहे तो वीकेंड्स पर कुछ घंटे फोकस्ड टाइम एलोकेट कर सकते हैं, या फिर अपने लेसन्स को कुछ मॉर्निंग्स या इवनिंग्स में स्प्रेड आउट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप अपनी फैमिली या जॉब के साथ बिजी हैं और मॉड्यूलस के लिए टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं, तो आप कुछ दिनों का ब्रेक भी ले सकते हैं और बाद में वापस आकर कम्प्लीट कर सकते हैं। लेकिन हमारी रेकमेंडेशन यह है कि इनिशियली आप कॉन्शस एफ़ोर्ट लगाएं रूटीन सेट अप करने में, उसको फॉलो करने में, हैबिट्स फॉर्म करने में और जल्दी ही आप नोटिस करेंगे कि आप डेली रिचुअल्स को बिना किसी एफ़ोर्ट के करने लगे हैं और यह आपके डे-टू-डे रूटीन में आसानी से फिट हो गया है। इसके अलावा, आपको अपने हेल्पफुल कोचेज़ से ईमेलिंग और फोन कॉल का एक्सेस मिलता है जो आपकी इन्क्वायरीज़ को क्विकली एड्रेस करेंगे।

पर यह बात ज़रूर याद रखिए कि हमारा प्रोग्राम सबके लिए सूटेबल नहीं है। अगर आप प्रोग्राम को स्टेप-बाय-स्टेप फॉलो करने के लिए और कमिट करने के लिए रेडी नहीं हैं, तो हम काइंडली रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इस प्रोग्राम को ना खरीदें। हमारा प्रोग्राम आपके लिए नहीं है अगर आप रेडी नहीं हैं अपनी लाइफ को बदल देने वाले पर्सनल डेवलपमेंट टूल्स को फॉलो करने के लिए। हमारा प्रोग्राम आपके लिए नहीं है अगर आप रेडी नहीं हैं अपने अंदर की ग्रोथ और इनर एक्सपेंशन के लिए रिक्वायर्ड टाइम निकालने के लिए। हमारा प्रोग्राम आपके लिए नहीं है अगर आप इस लाइफ चेंजिंग प्रोग्राम के एंड तक डेडिकेटेड रहने के लिए रेडी नहीं हैं। हमारा प्रोग्राम आपके लिए नहीं है अगर आप अपने कम्फर्ट ज़ोन से बाहर निकलने और अपनी यूनिक टैलेंट्स, फीलिंग्स, और एस्पिरेशन्स को एक फ्रेश और एनर्जाइजिंग व्यूपॉइंट से डिस्कवर करने के लिए

## Mindmagiq – MIND BOOSTER PROGRAM SNAPSHOT

रेडी नहीं हैं।

हम आपको गारंटी दे सकते हैं कि जब आप यह प्रोग्राम कम्प्लीट करेंगे अपनी पूरी कमिटमेंट के साथ, तो आप जो भी डिफिकल्टीज जनरली फेस करते हैं इन योर पर्सनल लाइफ वो सब गायब हो जाएंगे। आप हर तरह के रोडब्लॉक्स को पार कर पाएंगे। आप अपनी लाइफ में थ्रिलिंग न्यू हाइट्स तक पहुँचेंगे, और यह सक्सेस रेसिपी आपकी लाइफ में डीपली सेट हो जाएगी अस अ रिजल्ट ऑफ दैट आप वह हर चीज़ पा सकेंगे जो आप पाना चाहते हैं। इस प्रोग्राम के थ्रू, आप हमारे कोचेस से सीधे कम्युनिकेट भी कर पाएंगे और अपने इस चेंज के दौरान सपोर्ट रिसीव कर सकेंगे।

अगर आपके पास और भी क्वेश्चन्स हैं, तो हमें [sapna@mindmagiq.com](mailto:sapna@mindmagiq.com) पर ईमेल करें एक क्विक एंड फ्रेंडली रिप्लाई के लिए। जाते-जाते मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी कि, कि इस प्रोग्राम का अंत, अंत नहीं, बल्कि आपके लिए एक नई शुरुआत होगा, जहाँ आप अपने बेस्ट ऑफ द बेस्ट वर्जन ऑफ लाइफ को जी सकेंगे और उसको पूरी तरह से एन्जॉय भी कर सकेंगे। तो चलिए, आपका इंतजार रहेगा, हमारे माइंड बूस्टर प्रोग्राम में, जहाँ आपके नए वर्जन ऑफ लाइफ को हम साथ मिलकर अनपैक करेंगे, और देखेंगे कि आखिर कितने सारे हिडन जेम्स, आपने, अपने अंदर छिपा रखे हैं...तब तक के लिए...स्टे हेल्दी, कीप स्माइलिंग, और इन्वेस्ट इन योर ओन ग्रोथ एंड वेलबीइंग। वी लुक फॉरवर्ड टू मीटिंग यू ऑन दिस मैजिकल जर्नी।